

PATENTS - 2024-25
No. of Patents Published: 02



Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
Department for Promotion of Industry and Internal Trade
Ministry of Commerce & Industry,
Government of India



Application Details	
APPLICATION NUMBER	202541042698
APPLICATION TYPE	ORDINARY APPLICATION
DATE OF FILING	02/05/2025
APPLICANT NAME	1 . Abhishek K J 2 . Dr. Sathish Reddy 3 . Dr. B.E. Kumara Swamy 4 . REVA University 5 . KUVEMPU University
TITLE OF INVENTION	Metal Organic Framework/Carbon Nanotube/Nanocellulose-Based Composite Electrode for Electrochemical Detection of Chloramphenicol and Furazolidone
FIELD OF INVENTION	CHEMICAL
E-MAIL (As Per Record)	iprcell@reva.edu.in
ADDITIONAL-EMAIL (As Per Record)	sathish.reddy@reva.edu.in
E-MAIL (UPDATED Online)	
PRIORITY DATE	
REQUEST FOR EXAMINATION DATE	--
PUBLICATION DATE (U/S 11A)	30/05/2025


Director
Research & Development Cell
(Development Section)
Kuvempu University
Jnanasahyadri
SHANKARGHATTA-577 401
Shimoga Dist. Karnataka



Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
Department for Promotion of Industry and Internal Trade
Ministry of Commerce & Industry,
Government of India



Application Details

APPLICATION NUMBER	202541065275
APPLICATION TYPE	ORDINARY APPLICATION
DATE OF FILING	09/07/2025
APPLICANT NAME	1 . Dr. B.E. Kumara Swamy 2 . Dr. Mohan Kumar 3 . Dr. Sathish Reddy 4 . Kuvempu University 5 . PES Institute of Technology and Management 6 . REVA University
TITLE OF INVENTION	Coconut oil as a binder for the fabrication of biocompatible paste electrodes, and dopamine detection
FIELD OF INVENTION	CHEMICAL
E-MAIL (As Per Record)	iprcell@reva.edu.in
ADDITIONAL-EMAIL (As Per Record)	sathish.reddy@reva.edu.in
E-MAIL (UPDATED Online)	
PRIORITY DATE	
REQUEST FOR EXAMINATION DATE	--
PUBLICATION DATE (U/S 11A)	18/07/2025



Director
Research & Development Cell
(Development Section)
Kuvempu University
Jnanasahyadri
SHANKARGHATTA-577 451
Shimoga Dist. Karnataka

No. of Patents Granted: 01

INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
PATENT (DESIGN & TRADEMARK)
GEOGRAPHICAL INDICATIONS

भारत सरकार
सत्यमेव जयते

क्रम सं/SL No 044185991

पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार | **The Patent Office, Government Of India**
पेटेंट प्रमाण पत्र | **Patent Certificate**
(पेटेंट नियमों का नियम 74) | (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 531857
आवेदन सं. / Application No. : 202341028353
घाड़ल करने की तारीख / Date of Filing : 18/04/2023
पेटेंटी / Patentee : 1.Prof. B. THIPPESWAMY 2.Mrs. AMITHA GANAPATHY B

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में बयां प्रकटित **NANO-BIO-ZINC (NBZ) FORMULATION FOR AGRICULTURE APPLICATIONS** नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख अप्रैल 2023 के अठारहवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदान किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled **NANO-BIO-ZINC (NBZ) FORMULATION FOR AGRICULTURE APPLICATIONS** as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 18th day of April 2023 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.

अनुदान की तारीख : 05/04/2024
Date of Grant : 05/04/2024

विशेष - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, अप्रैल 2025 के अठारहवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होंगे।
Note - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 18th day of April 2025 and on the same day in every year thereafter.

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patents

Director
Research & Development Cell
(Development Section)
Kuvempu University
Jnanashyadri
SHANKARGHATTA-577 403
Shimoga Dist. Karnataka